



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 24 नवम्बर, 2020

अग्रहायण 3, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/809-2020-4/119(बहराइच)-2014

लखनऊ, 24 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-354

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी/2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0 को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0 लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा0नि0आ0/2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा0नि0आ0/2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद बहराइच की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/364-2015-4/119(बहराइच)/2014, दिनांक 20 फरवरी, 2015 में विकास खण्ड पयागपुर की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

जनपद-बहराइच

सारिणी

क्र०सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
450	पयागपुर	कुशभौना	कुशभौना	1	पयागपुर	कुशभौना	कुशभौना
451	पयागपुर	पहलवारा	पहलवारा	2	पयागपुर	पहलवारा	पहलवारा
	पयागपुर		देवरिया		पयागपुर		देवरिया
452	पयागपुर	पिपरा पदारथ	पिपरा पदारथ	3	पयागपुर	पिपरा पदारथ	पिपरा पदारथ
453	पयागपुर	मनिकापुर कलां	मनिकापुर कलां	4	पयागपुर	मनिकापुर कलां	मनिकापुर कलां
454	पयागपुर	गुरचाही	गुरचाही	5	पयागपुर	गुरचाही	गुरचाही
455	पयागपुर	रोहनीभारी	रोहनीभारी	6	पयागपुर	रोहनीभारी	रोहनीभारी
456	पयागपुर	कोडरीताल	कोडरीताल	7	पयागपुर	कोडरीताल	कोडरीताल
	पयागपुर		खुनौरा		पयागपुर		खुनौरा
457	पयागपुर	बनियागांव	बनियागांव	8	पयागपुर	बनियागांव	बनियागांव
	पयागपुर		सेवा समाधि		पयागपुर		सेवा समाधि
458	पयागपुर	सेमरियावां	सेमरियावां	9	पयागपुर	सेमरियावां	सेमरियावां
459	पयागपुर	हसुवापारा	हसुवापारा	10	पयागपुर	हसुवापारा	हसुवापारा
460	पयागपुर	परसिया आलम	परसिया आलम	11	पयागपुर	परसिया आलम	परसिया आलम
461	पयागपुर	कलुई	कलुई	12	पयागपुर	कलुई	कलुई
462	पयागपुर	वैनी	वैनी	13	पयागपुर	वैनी	वैनी
	पयागपुर		खुरथुवा		पयागपुर		खुरथुवा
463	पयागपुर	खजुरी	खजुरी	14	पयागपुर	खजुरी	खजुरी
464	पयागपुर	लखाही पुतली तारा	लखाही पुतली तारा	15	पयागपुर	लखाही पुतली तारा	लखाही पुतली तारा
465	पयागपुर	भिगुरी	भिगुरी	16	पयागपुर	भिगुरी	भिगुरी
466	पयागपुर	पैड़ी	पैड़ी	17	पयागपुर	पैड़ी	पैड़ी
	पयागपुर		कलहवापुर		पयागपुर		कलहवापुर
467	पयागपुर	ऐलो	ऐलो	18	पयागपुर	ऐलो	ऐलो
468	पयागपुर	बभनियावां	बभनियावां	19	पयागपुर	बभनियावां	बभनियावां
469	पयागपुर	पचदेवरा	पचदेवरा	20	पयागपुर	पचदेवरा	पचदेवरा
	पयागपुर		गोविन्दपुर		पयागपुर		गोविन्दपुर
470	पयागपुर	परना	परना	21	पयागपुर	परना	परना
471	पयागपुर	पड़री	पड़री	22	पयागपुर	पड़री	पड़री
472	पयागपुर	परसिया पंडित	परसिया पंडित	23	पयागपुर	परसिया पंडित	परसिया पंडित
473	पयागपुर	रायडीह	रायडीह	24	पयागपुर	रायडीह	रायडीह
474	पयागपुर	मलावा	मलावा	25	पयागपुर	मलावा	मलावा
475	पयागपुर	शिवदहा	शिवदहा	26	पयागपुर	शिवदहा	शिवदहा

क्र०सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
476	पयागपुर	पकड़ीकलां	पकड़ीकलां	27	पयागपुर	पकड़ीकलां	पकड़ीकलां
477	पयागपुर	थवई	थवई	28	पयागपुर	थवई	थवई
	पयागपुर		निपनिया		पयागपुर		निपनिया
478	पयागपुर	डेरवा हरवंशपुर	डेरवा हरवंशपुर	29	पयागपुर	डेरवा हरवंशपुर	डेरवा हरवंशपुर
479	पयागपुर	सेवढा	सेवढा	30	पयागपुर	सेवढा	सेवढा
480	पयागपुर	चन्दवापुर	चन्दवापुर	31	पयागपुर	चन्दवापुर	चन्दवापुर
481	पयागपुर	वीरपुर	वीरपुर	32	पयागपुर	वीरपुर	वीरपुर
482	पयागपुर	खुटेहना	खुटेहना	33	पयागपुर	खुटेहना	खुटेहना
483	पयागपुर	अरकापुर	अरकापुर	34	पयागपुर	अरकापुर	अरकापुर
484	पयागपुर	खोरिया शफीक	खोरिया शफीक	35	पयागपुर	खोरिया शफीक	खोरिया शफीक
	पयागपुर		गुलवरिया		पयागपुर		गुलवरिया
485	पयागपुर	हटवा हरदास	हटवा हरदास	36	पयागपुर	हटवा हरदास	हटवा हरदास
	पयागपुर		भदौलीचक		पयागपुर		भदौलीचक
486	पयागपुर	कोल्हुवा	कोल्हुवा	37	पयागपुर	कोल्हुवा	कोल्हुवा
487	पयागपुर	लहड़ौरा	लहड़ौरा	38	पयागपुर	लहड़ौरा	लहड़ौरा
488	पयागपुर	सतपेडिया	सतपेडिया	39	पयागपुर	सतपेडिया	सतपेडिया
489	पयागपुर	रजुवापुर	रजुवापुर	40	पयागपुर	रजुवापुर	रजुवापुर
490	पयागपुर	बेलवा पदुम	बेलवा पदुम	41	पयागपुर	बेलवा पदुम	बेलवा पदुम
	पयागपुर		कलाम सतरही		पयागपुर		कलाम सतरही
491	पयागपुर	लालपुर	लालपुर	42	पयागपुर	लालपुर	लालपुर
492	पयागपुर	इमलियागंज	इमलियागंज	43	पयागपुर	इमलियागंज	इमलियागंज
493	पयागपुर	झाला तरहर	झाला तरहर	44	पयागपुर	झाला तरहर	झाला तरहर
494	पयागपुर	बनकटा	बनकटा	45	पयागपुर	बनकटा	बनकटा
495	पयागपुर	शम्भू टिकरी	शम्भू टिकरी	46	पयागपुर	शम्भू टिकरी	शम्भू टिकरी
496	पयागपुर	रुकनापुर	रुकनापुर	47	पयागपुर	रुकनापुर	रुकनापुर
497	पयागपुर	अमदापुर	अमदापुर	48	पयागपुर	अमदापुर	अमदापुर
498	पयागपुर	सहसरावां	सहसरावां	49	पयागपुर	सहसरावां	सहसरावां
					पयागपुर		पयागपुर
499	पयागपुर	हटवा गोपाल	हटवा गोपाल	50	पयागपुर	हटवा गोपाल	हटवा गोपाल

क्र०सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
500	पयागपुर	सतरही	सतरही	51	पयागपुर	सतरही	सतरही
501	पयागपुर	त्रिकोलिया	त्रिकोलिया	52	पयागपुर	त्रिकोलिया	त्रिकोलिया
502	पयागपुर	मधनगरा	मधनगरा	53	पयागपुर	मधनगरा	मधनगरा
	पयागपुर		बेलखरा		पयागपुर		बेलखरा
503	पयागपुर	मो०पुर ककरहा	मो०पुर ककरहा	54	पयागपुर	मो०पुर ककरहा	मो०पुर ककरहा
504	पयागपुर	सरसा	सरसा	55	पयागपुर	सरसा	सरसा
505	पयागपुर	पहड़वा	पहड़वा	56	पयागपुर	पहड़वा	पहड़वा
	पयागपुर		हरैया		पयागपुर		हरैया
506	पयागपुर	सुमेरपुर	सुमेरपुर	57	पयागपुर	सुमेरपुर	सुमेरपुर
507	पयागपुर	मोहनपुर माफी	मोहनपुर माफी	58	पयागपुर	मोहनपुर माफी	मोहनपुर माफी
508	पयागपुर	राजापुर कलां	राजापुर कलां	59	पयागपुर	राजापुर कलां	राजापुर कलां
509	पयागपुर	पयागपुर	पयागपुर			नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं० 2549 दिनांक 17.12.19 के क्रम में राजस्व ग्राम पयागपुर को नजदीकी ग्राम पंचायत— सहसरावा में सम्मिलित किया गया है।	
510	पयागपुर	अकरौरा	अकरौरा	60	पयागपुर	अकरौरा	अकरौरा
511	पयागपुर	नूरपुर	नूरपुर			नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं० 2549 दिनांक 17.12.19 के क्रम में नगर पंचायत—पयागपुर में सम्मिलित किया गया।	
512	पयागपुर	काशीजोत	काशीजोत	61	पयागपुर	काशीजोत	काशीजोत
513	पयागपुर	तालाब बघेल	तालाब बघेल	62	पयागपुर	तालाब बघेल	तालाब बघेल
							सचौली
514	पयागपुर	भगतपुरवा	भगतपुरवा	63	पयागपुर	भगतपुरवा	भगतपुरवा
515	पयागपुर	सोहरियावां	सोहरियावां	64	पयागपुर	सोहरियावां	सोहरियावां
516	पयागपुर	नरायनपुर	नरायनपुर	65	पयागपुर	नरायनपुर	नरायनपुर

क्र०सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
517	पयागपुर	मुण्डेरवा ठकुराइन	मुण्डेरवा ठकुराइन	66	पयागपुर	मुण्डेरवा ठकुराइन	मुण्डेरवा ठकुराइन
518	पयागपुर	उधरना ठकुराइन	उधरना ठकुराइन	67	पयागपुर	उधरना ठकुराइन	उधरना ठकुराइन
	पयागपुर		चन्दामऊ		पयागपुर		चन्दामऊ
519	पयागपुर	चैसार	चैसार	68	पयागपुर	चैसार	चैसार
520	पयागपुर	सचौली	सचौली			नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं० 2549 दिनांक 17.12.19 के क्रम में राजस्व ग्राम सचौली को नजदीकी ग्राम पंचायत— तालाब बघेल में सम्मिलित किया गया है।	
521	पयागपुर	सुहेलवा	सुहेलवा	69	पयागपुर	सुहेलवा	सुहेलवा
	पयागपुर		दुहेलवा				दुहेलवा
	पयागपुर		दुधौली				दुधौली

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/364/2015-4/119(बहराइच)/2014, दिनांक 20 फरवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 436 राजपत्र-2020-(967)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 28 सा० पंचायती राज-2020-(968)-132 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।